



पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

सराहनीय कार्य

दिनांक 03.10.2020

1-थाना जारचा पुलिस द्वारा नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 04 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा, (कीमत लगभग 40 हजार रुपये) बरामद :

दिनांक 02.10.2020 को थाना जारचा पुलिस द्वारा नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले 01 अभियुक्त शरीफ पुत्र फितरत निवासी कस्बा व थाना जारचा गौतमबुद्धनगर को थाना क्षेत्र के एन0टी.पी0सी0 रोड से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 04 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया जिसकी कीमत लगभग 40 हजार रुपये है। अभियुक्त का एक साथी वसगर पुत्र मुन्शी निवासी कस्बा जारचा थाना जारचा गौतमबुद्धनगर, मौके से फरार हो गया।

अभियुक्त का विवरण-

शरीफ पुत्र इसरत निवासी कस्बा व थाना जारचा गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण-

1. 234/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना जारचा गौतमबुद्धनगर।
2. 131/2018 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना जारचा गौतमबुद्धनगर।
3. 130/2017 धारा 392, 342, 120 बी, 411 भादवि थाना जारचा गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण-

04 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा (कीमत लगभग 40 हजार रुपये)।

2-थाना सेक्टर 24 पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त मय 01 ट्रक के गिरफ्तार :

दिनांक 02/10/2020 को थाना सेक्टर 24 पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 578/2020 धारा 279/427/338/304A आईपीसी थाना सेक्टर 24 नोएडा के वांछित अभियुक्त प्रदीप पुत्र सुरेंद्र सिंह निवासी नगला मुद्दीनपुर थाना कोतवाली देहात जिला बुलंदशहर को थाना क्षेत्र के सेक्टर 34 स्थित पेट्रोल पम्प के पास से मय 01 ट्रक नंबर एच आर 55 एल 9010 गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त का विवरण-

प्रदीप पुत्र सुरेंद्र सिंह उम्र 48 वर्ष निवासी गांव नगला मुद्दीनपुर थाना कोतवाली देहात जिला बुलंदशहर

आपराधिक इतिहास का विवरण-

मु0अ0स0 578/2020धारा 279/427/338/304A थाना सेक्टर 24 गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण-

01 ट्रक नंबर एच आर 55 एल 9010